



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 चैत्र, 1940 (श०)

संख्या- 329 राँची, मंगलवार, 27 मार्च, 2018 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

अधिसूचना

19 फरवरी, 2018 ई०।

संख्या-13/सी०-101/2018-1040--

प्रेषक,

गणेश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची ।

विषय:- श्रीमती शिवानी तिवारी, भा०पु०से०(2011) पुलिस अधीक्षक, झारखण्ड जगुआर (एस०टी०एफ०) झारखण्ड, राँची सम्प्रति पुलिस अधीक्षक, कोडरमा द्वारा पदस्थपन की प्रतीक्षा में बितायी गयी अवधि की सेवा निनियमित करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि श्रीमती शिवानी तिवारी, भा०पु०से० (2011) ने गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०-11014/01/2017/IPS.IV, दिनांक 31 अगस्त, 2017 के आलोक में पश्चिम बंगाल से झारखंड संवर्ग स्थानांतरण के फलस्वरूप दिनांक 4 सितम्बर, 2017 के अपराहन में पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड में योगदान दिया। पुनः विभागीय अधिसूचना सं०-5128, दिनांक 15 सितम्बर, 2017 तथा पुलिस मुख्यालय के गत्यादेश सं०-1280, दिनांक 18 सितम्बर, 2017 के आलोक में इन्होंने दिनांक 19 सितम्बर, 2017 के पूर्वाहन में पुलिस अधीक्षक, झारखण्ड जगुआर (एस०टी०एफ०) झारखण्ड, राँची के पद पर योगदान दिया। इस बीच श्रीमती तिवारी, भा०पु०से० दिनांक 5 सितम्बर, 2017 से 18 सितम्बर, 2017 तक प्रभार रहित अवधि में रहीं जिसमें इनका कोई दोष परिलक्षित नहीं होता है।

2. अतः वर्णित परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा श्रीमती शिवानी तिवारी, भा०पु०से० (2011) के दिनांक 5 सितम्बर, 2017 से 18 सितम्बर, 2017 तक की प्रभार रहित अवधि को भारत सरकार के मौलिक नियम-9(6)(b)(i) के तहत पदस्थापन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के रूप में सेवा निनियमित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. श्रीमती शिवानी तिवारी, भा०पु०से० (2011) को उक्त अवधि के लिए काटि वेतन देय होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

गणेश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।
